



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

कार्यालय - मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD
कक्ष सं 708, आयकर भवन, वेजलपुर, अहमदाबाद
Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad
दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel. : (079) 26941707, PIN: 380015
E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

का. मु. आ. आ./अहम/मुख्या./17(2)/ARPAN (NAV)(241/2026-27

दिनांक: 14.07.2026

विषय : आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(बी)(ii) के साथ पठित, आयकर नियमावली, 2026 के नियम 18 के अधीन अर्पण न्यूबॉर्न केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 15, अमर सोसाइटी, यूनिवर्सिटी बॉयज होस्टल के सामने, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380009 (पैन: AAJCA7187Q) को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में-

Sub. : Approval under section 17(2)(b)(ii) IT Act, 2025 read with rule 18 of IT Rules, 2026 in respect of ARPAN NEWBORN CARE CENTRE PVT LTD, 15, AMAR SOCIETY, OPPOSITE UNIVERSITY BOYS' HOSTEL, NEAR UNIVERSITY LIBRARY, NAVARANGPURA, AHMEDABAD -380009 (PAN: AAJCA7187Q)

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(बी)(ii) के अधीन अनुमोदन

Approval under section 17(2)(b)(ii) IT Act, 2025

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(बी)(ii) के साथ पठित, आयकर नियमावली, 2026 के नियम 18 के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

अर्पण न्यूबॉर्न केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 15, अमर सोसाइटी, यूनिवर्सिटी बॉयज होस्टल के सामने, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380009 (पैन: AAJCA7187Q) को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under section 17(2)(b)(ii) IT Act, 2025 read with rule 18 of IT Rules, 2026 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

ARPAN NEWBORN CARE CENTRE PVT LTD, 15, AMAR SOCIETY, OPPOSITE UNIVERSITY BOYS' HOSTEL, NEAR UNIVERSITY LIBRARY, NAVARANGPURA, AHMEDABAD -380009 (PAN: AAJCA7187Q)

2. तदनुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयकर नियमावली, 2026 के नियम 18 के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयकर में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 392 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।



2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment or any other member of his/her family at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 18 of IT Rules, 2026 shall not be treated as perquisite for the purpose of section 17 of the Income tax Act, 2025 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 392 of the Income tax Act, 2025 in respect of such sum.

3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(बी)(ii) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त - गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. The approval is only for the purpose of section 17(2)(b)(ii) IT Act, 2025 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

4. यह अनुमोदन तारीख 14.07.2026 to 13.07.2029 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 18 के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।

4. The approval is valid for a period of three years from 14.07.2026 to 13.07.2029 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 18 of the Income tax Rules, 2026 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 2025.

5. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

5. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

- (क) यह अनुमोदन केवल अर्पण न्यूबॉर्न केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 15, अमर सोसाइटी, यूनिवर्सिटी बॉयज होस्टल के सामने, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009 (पैन: AAJCA7187Q) के लिए है और हस्तांतरणीय नहीं है,
- (a) The approval is only for ARPAN NEWBORN CARE CENTRE PVT LTD, 15, AMAR SOCIETY, OPPOSITE UNIVERSITY BOYS' HOSTEL, NEAR UNIVERSITY LIBRARY, NAVARANGPURA, AHMEDABAD -380009 (PAN: AAJCA7187Q) and is not transferable,
- (ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।
- (b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,
- (ग) आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(2)(बी)(ii) के साथ पठित, आयकर नियमावली, 2026 के अधीन अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।



- (C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under section 17(2)(b)(ii) IT Act, 2025 read with rule 18 of IT Rules, 2026. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.
- (घ) यदि निर्धारित कंपनी, जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है, अनुमोदन की समाप्ति की तारीख से पहले किसी भी कारण से विलय, विलीन हो जाती है या अस्तित्व समाप्त हो जाती है, तो अनुमोदन समाप्त हो जाएगा।
- (d) The approval shall cease to exist in case the assessee company in whose name it is issued, merges, demerges or ceases to exist due to any reason, whatsoever, before the date of expiry of the approval.
- (ड) यह अनुमोदन निम्नलिखित बीमारियों/उपचार के लिए मान्य है:
- i.कैंसर;
 - ii.तपेदिक;
 - iii.अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम;
 - iv.हृदय, रक्त, लसीका ग्रंथियां, अस्थि मज्जा, श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां या त्वचा की बीमारी या बीमारी, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता होती है;
 - v.आंख, कान, नाक या गले की बीमारी या बीमारी, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता हो;
 - vi.कंकाल प्रणाली के किसी भी हिस्से में फ्रैक्चर या कशेरुकाओं की अव्यवस्था जिसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन या आर्थ्रोपेडिक उपचार की आवश्यकता होती है;
 - vii.~~स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी बीमारी या ऐसी बीमारी जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन या लेप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है;~~
 - viii.(iv) में उल्लिखित अंगों की बीमारी या रोग, जिसके लिए अस्पताल में कम से कम तीन लगातार दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;
 - ix.~~स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी बीमारी या ऐसी बीमारी जिसके लिए अस्पताल में कम से कम तीन लगातार दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;~~
 - x.जली हुई चोटों के लिए अस्पताल में कम से कम तीन लगातार दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;
 - xi.मानसिक विकार - विक्षिप्त या मानसिक - कम से कम लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;
 - xii.नशीली दवाओं की लत के लिए अस्पताल में कम से कम सात दिनों तक लगातार चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है;
 - xiii.इंसुलिन शॉक, दवा प्रतिक्रियाओं और अन्य एलर्जी अभिव्यक्तियों सहित एनाफिलेक्टिक झटके, जिसमें कम से कम तीन लगातार दिनों तक अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।




(e) This approval is valid for the following diseases/treatments:

- i. cancer;
- ii. tuberculosis;
- iii. acquired immunity deficiency syndrome;
- iv. disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation;
- v. ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation;
- vi. fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment;
- vii. ~~gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention;~~
- viii. ailment or disease of the organs mentioned at (iv), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- ix. ~~gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;~~
- x. burn injuries requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- xi. mental disorder - neurotic or psychotic - requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days;
- xii. drug addiction requiring medical treatment in a hospital for at least seven continuous days;
- xiii. anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

(च) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 90 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(f) The application for renewal of approval should be submitted at least 90 days before the expiry of the current approval.


(सुशील कुमार मधुक)

(Sushil Kumar Madhuk)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।

Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, अर्पण न्यूबॉर्न केयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 15, अमर सोसाइटी, यूनिवर्सिटी बॉयज होस्टल के सामने,
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380009 (पैन: AAJCA7187Q)

The Director, ARPAN NEWBORN CARE CENTRE PVT LTD, 15, AMAR SOCIETY, OPPOSITE UNIVERSITY BOYS' HOSTEL, NEAR UNIVERSITY LIBRARY, NAVARANGPURA, AHMEDABAD -380009 (PAN: AAJCA7187Q)






Copy To/ प्रतिलिपि:-

- 1) The Chairperson, CBDT
- 2) All Pr.CCITs
- 3) All CCITs
- 4) Principal Commissioners of Income-tax – 1, Ahmedabad
- 5) The Municipal Commissioner, AHMEDABAD with a request to inform this office immediately in case of revocation/cancellation of the form/license/registration of the hospital
- 6) The Addl. CIT. Range-1(1), AHMEDABAD.
- 7) The DCIT CIRCLE 1(1)(1), AHMEDABADITO,
- 8) The DCIT(HQ)(Coord.), Ahmedabad
- 9) Guard File.




(दीपक पारीक)

उप-आयकर आयुक्त (मुख्या.)-1,
कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE
आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX
CCIT, AHMEDABAD-1

सेवा में/ To, ARPAN NEWBORN CARE CENTRE PRIVATE LIMITED 15 AMAR SOCIETY OPP UNIVERSITY BOYS,HOSTEL NEAR UNIVERSITY LIABRARY NAVARNGPURA AHMEDABAD, Gujarat, India, 380009,	
--	--

स्थायी लेखा संख्या/ PAN: AAJCA7187Q	द.प.सं. एवं प्रपत्राक संख्या / DIN & Document No.: ITBA/COM/S/91/2026-27/1091101421(1)	दिनांक/ Dated: 15/07/2026
---	--	-------------------------------------

Intimation Letter

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

This is to inform you that Order/Notice/Letter dated 14/07/2026 is having Document No. (DIN)
ITBA/COM/M/17/2026-27/1091101385(1).

This is a system generated document and does not require any signature.

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.

ROOM NO:708, Aayakar Bhawan (Vejalpur), Nr : Sachin Tower, 100 Foot Road, Anandnagar-Prahladnagar Road, Ahmedabad, Gujarat, 380015
Email: AHMEDABAD.CCIT1@INCOMETAX.GOV.IN,

Note:- The website address of the e-filing portal has been changed from www.incometaxindiaefiling.gov.in to www.incometax.gov.in.

* DIN- Document identification No.